



PON VIDYASHRAM GROUP OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS

CLASS - VIII HINDI II - LANGUAGE NOTES FOR OCTOBER MONTH

(2024-25)

PORTION :

कविता 7 : मन में है विश्वास

पाठ 9 : लता मंगेशकर

I शब्दार्थ :

1. कामयाब – सफल - successful
2. विश्वास - भरोसा – believe
3. शांति - संतुष्टि - peace
4. चारों ओर - सभी तरफ़ - all round
5. भय - डर - fear
6. मन - चित्त - mind

II सही विकल्प चुनिए :

1) कविता से किस भाव का पता चलता है

उत्तर: क) आत्मविश्वास

2) एक दिन चारों ओर क्या होगी ?

उत्तर: ख) शांति

3) मन में किस बात का विश्वास है ?

उत्तर: ग) सफलता का

III मौखिक प्रश्नोत्तर :

1) बच्चे किन-किन बातों के प्रति आश्वस्त हैं ?

उत्तर: बच्चे कामयाब होने के प्रति आश्वस्त हैं।

2) बच्चों के नहीं डरने के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर: बच्चों के नहीं डरने का कारण उनका एकजुट होकर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है।

लिखित प्रश्नोत्तर:

1)'हम चलेंगे साथ-साथ, डाल हाथों में हाथ यह पंक्ति किस बात की ओर संकेत कर रही है ?

उत्तर: * हमें एक-दूसरे का हाथ थामे साथ-साथ चलना है।

*हमें आपस में भेदभाव नहीं करना है ।

2)'नहीं डर किसी का आज' यहाँ किस प्रकार के डर की समाप्ति की बात हो रही है ?

उत्तर: यहाँ असफलता के डर की समाप्ति की बात हो रही है ।

3)आपके अनुसार शांति कब और कैसे होगी ?

उत्तर: हमारे अनुसार आपसी सामंजस्य स्थापित करने से आने वाले कुछ वर्षों में विश्वस्तर पर शांति होगी ।

IV खाली स्थान में उपयुक्त कारक भरिए :

क)राहुल ने आज कुछ नहीं खाया ।

ख)बंदर पेड़ पर बैठा है ।

ग)पापा अमिता के लिए गिटार लाए ।

घ)मैं बस से ऑफिस जाता हूँ ।

V.वाक्यों को हिन्दी में लिखिए:

क)हम होंगे कामयाब एक दिन।

ख)होगी शांति चारों ओर एक दिन

ग)एक दिन हम हाथों में हाथ डालकर चलेंगे।

VI.वाक्य में प्रयोग कीजिए :

साथ – मैं अपने पिताजी के साथ पार्क गया।

हाथ- दादा जी के हाथ में जप करने वाली माला है ।

कामयाब- कामयाब होने का मूल मंत्र है – परिश्रम।

विश्वास – मेरे माता-पिता को मुझपर पूरा विश्वास है ।

शांति – बगीचे में चारों ओर शांति छाई हुई है।

चारों ओर – वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा हुई है ।

आज – आज मैं पाठशाला नहीं जाऊँगा

मन – मन में संतोष होना बहुत आवश्यक है ।

VII. वाक्यांश लिखिए:

क) आज्ञाकारी – आज्ञा को मानने वाला

ख) आत्मविश्वासी- अपने पर विश्वास रखने वाला

ग) दयालु- दया करने वाला

घ) मेहनती – मेहनत करने वाला

VIII. इन वाक्यों को भूतकाल में लिखिए :

क) उत्तर: एक दिन चारों ओर शांति थी।

ख) उत्तर: एक दिन हम साथ-साथ चले थे ।

ग) एक दिन हम कामयाब थे ।

घ) एक दिन किसी का डर नहीं था ।

पाठ: लता मंगेशकर

| शब्दार्थ:

1 आवाज़ – ध्वनि voice

2 प्यारी - प्रिय lovely

3 विश्व - संसार world

4 संघर्ष - स्पर्धा struggle

5 आर्थिक- धन से संबंधित economy

6 कठिन - जटिल difficult

7 साम्राज्य – शासन क्षेत्र empire

8 वैज्ञानिक - विज्ञान की खोज करने वाले scientist

9 सुरीली - मधुर सुरीली स्वर वाली melodious

II सही विकल्प चुनकर लिखिए:

1) राष्ट्र की आवाज़ किसे कहा जाता है ?

उत्तर: लता जी को

2) लता जी की जीवन यात्रा कैसी थी ?

उत्तर: काफी संघर्षपूर्ण

3) लता दीदी कभी स्कूल नहीं आई-

उत्तर: टीचर से अनबन हो गई

4) पिता की मृत्यु के समय इनकी आयु थी -

उत्तर: तेरह वर्ष

III सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए:

1) लता मंगेशकर की सुरमयी आवाज़ ने संपूर्ण विश्व को अपना दीवाना बना दिया ।

2) लता दीदी की जीवन यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही ।

3) अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि इतनी सुरीली आवाज़ न कभी थी और न कभी होगी ।

4) इन्होंने 2004 में वीरजारा के लिए गाना गाया ।

5) इनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी ।

IV सही या गलत लिखिए:

1) उन्होंने उस्ताद अमन अली से संगीत सीखना शुरू किया था ।

उत्तर: सही

2) आखिरी बार उन्होंने 2006 में गाना गाया था ।

उत्तर: गलत

3) 1969 में इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया था ।

उत्तर: सही

4) 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था

उत्तर: गलत

V प्रश्नोत्तर: (मौखिक)

1) लता जी का जन्म कब हुआ था ?

उत्तर: लता जी का जन्म 28 सितंबर , 1929 हुआ

था ।

2) इन्होंने कितने वर्ष में ही संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया था ?

उत्तर: इन्होंने पाँच वर्ष में ही संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया था ।

3) लता जी ने संगीत की शिक्षा किसे ली थी ?

उत्तर: लता जी ने संगीत की शिक्षा उस्ताद अमन अली से ली थी ।

लिखित प्रश्नोत्तर

1) लता जी ने स्कूल न जाने के पीछे क्या कारण था ?

उत्तर: *पहले दिन ही टीचर से उनकी अनबन हो गई।

*उनकी टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की आज्ञा

नहीं दी ।

*इसी बात से उनको गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गईं।

2) पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी कैसे दूर की थी ?

उत्तर: लता को अभिनय पसंद नहीं था परंतु आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिन्दी व मराठी फिल्मों में भी काम किया ।

3) लता जी की गायिकी का सफ़र कितने वर्षों तक चला ?

इस अवधि में उन्होंने कितने गाने गाए ?

उत्तर : लता जी की गायिकी का सफ़र 78 वर्षों

तक चला । इस अवधि में उन्होंने 50 हजार गाने

गाए ।

VI। इन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए:

उपसर्ग + शब्द नया शब्द

1) प्र + सिद्ध प्रसिद्ध

2) प्र + योग प्रयोग

3) प्र + भाव प्रभाव

शब्द + प्रत्यय

4) संस्कृत + इक सांस्कृतिक

5) शास्त्र + ईय शास्त्रीय

6) समर्पण + इत समर्पित

VII अंग्रेजी में लिखिए

1) लता जी का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा ।

उत्तर: Lata ji's life was very struggling

2) लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था ।

उत्तर: Lata ji was born in Indore

VIII लिंग बदलकर लिखिए:

1) पिता – माता

2) देवी - देवता

3) विद्वान - विदुषी

4) पुत्री - पुत्र

5) स्त्री - पुरुष

6) अभिनेता - अभिनेत्री

IX गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1) उत्तर: भारतों को तीर्थों का देश कहा जाता है ।

2) उत्तर: लेखक ने बड़े-बड़े उद्योग और कारखानों को सामाजिक तीर्थ कहा है ।

3) जनता के मन में आशाओं के संचार का कारण भारत का परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करना है।